



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

25 श्रावण, 1941 (श०)

संख्या- 660 राँची, शुक्रवार,

16 अगस्त, 2019 (ई०)

गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ।

अधिसूचना

06 अगस्त, 2019 ई०।

संख्या-10/विविध-1216/2018- 4210 -- राज्य सरकार द्वारा झारखण्ड/वनांचल अलग राज्य के गठन हेतु किये गये आंदोलन के आंदोलनकारियों को सम्मानित करने हेतु निर्णय विभागीय संकल्प संख्या-2108, दिनांक-07.05.2012 (प्रति संलग्न) द्वारा लिया गया था।

2. उक्त संकल्प के आलोक में आंदोलनकारियों को चिन्हित करने हेतु गठित झारखण्ड/वनांचल आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में राज्य सरकार द्वारा जिलावार चिन्हित आन्दोलनकारियों की सूची पर स्वीकृति प्रदान करते हुए **अधिसूचना संख्या-4920, दिनांक-10.08.2015** एवं **अधिसूचना संख्या-5275, दिनांक-22.09.2017** द्वारा अधिसूचित किया गया था।

3. उक्त विभागीय अधिसूचना द्वारा अधिसूचित झारखण्ड आन्दोलनकारियों का कंडिका सुधार संबंधी प्रतिवेदन चिन्हितीकरण आयोग के **पत्रांक-2688, दिनांक-22.02.2019** द्वारा प्राप्त हुआ। उक्त प्रतिवेदनों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा संलग्न सूची के अनुसार चिन्हित आंदोलनकारियों की कंडिका सुधार पर स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस चिन्हित आंदोलनकारियों को उक्त संकल्प के

प्रावधानों के अनुरूप उनकी कोटि के अंतर्गत वर्णित सुविधाएं संबंधित जिला के उपायुक्त द्वारा प्रदान की जायेगी।

4. संबंधित उपायुक्त अपने जिले से सम्बद्ध संलग्न सूची में नामांकित चिन्हित झारखण्ड/वनांचल आन्दोलनकारी की पहचान करते हुए उन्हें प्रतिमाह देय बकाया सम्मान पेंशन राशि का एक मुश्त भुगतान संगत बजट शीर्ष में निधि की उपलब्धता के आधार पर से सुनिश्चित करेंगे एवं प्रत्येक माह का सम्मान पेंशन का उसके अगले माह के प्रथम सप्ताह तक भुगतान होगा।

5. यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में किसी एक आन्दोलनकारी को दोहरा सम्मान पेंशन का भुगतान नहीं हो सके।

6. यह दिनांक-01.08.2015 से प्रभावी होगा।

अनु.-यथोक्त।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

इग्नातियुस कुल्लू,
सरकार के उप सचिव।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

गृह विभाग के संकल्प संख्या-6/विविध-1013/2008-2108, दिनांक-07.05.2012 में निहित प्रावधानों के अनुरूप चिन्हित आंदोलनकारियों की सूची:-

क्र०	नाम एवं पता	अधिसूचना सं.-4920 दि.-10.08.15, 5275, दिनांक-22.09.17 द्वारा अधिसूचित चिन्हित आन्दोलनकारियों की जिला सूची में क्रमांक/वर्गीकरण	संकल्प सं.-2108 दिनांक 07.05.12 के तहत वर्तमान का वर्गीकरण एवं आधार
1	श्री बुद्धेश्वर गोप पिता-स्व. सहदेव गोप ग्राम-करमटांड पो.-चन्द्रा, थाना-चन्दनकियारी जिला-बोकारो	प्रथम संपुष्ट सूची, जिला - बोकारो सूची में क्रमांक-116 कण्डिका-2 (अन्य)	चन्दनकियारी थाना प्राथ. संख्या-117/92 के अंतर्गत संसीमित रहने का कारा संसीमन प्रमाण पत्र (अधीक्षक, मंडल कारा, चास, बोकारो के पत्रांक-193, दिनांक-11.02.2019 से सत्यापित) कण्डिका-3 (क)
2	श्री शिव कुमार साहु पिता-स्व. ज्योति लाल साहु ग्राम-चन्द्रा, पो.-चन्द्रा थाना-चन्दनकियारी जिला-बोकारो	प्रथम संपुष्ट सूची, जिला - बोकारो सूची में क्रमांक-117 कण्डिका-2 (अन्य)	चन्दनकियारी थाना प्राथ. संख्या-117/92 के अंतर्गत संसीमित रहने का कारा संसीमन प्रमाण पत्र (अधीक्षक, मंडल कारा, चास, बोकारो के पत्रांक-193, दिनांक-11.02.2019 से सत्यापित) कण्डिका-3 (क)
3	श्री पालू राम मुर्मू उर्फ पतलु राम मुर्मू पिता-स्व. राजू मुर्मू ग्राम-विक्रमपुर, पो.-बादिया, थाना-मुसाबनी जिला- पूर्वी सिंहभूम	प्रथम संपुष्ट सूची, जिला - पूर्वी सिंहभूम सूची में क्रमांक-242 कण्डिका-2 (अन्य)	मुसाबनी थाना प्राथ. सं. 77/89 के आरोप पत्र के हिरासत कालम में नाम के आधार पर (आरोप पत्र न्यायालय की अभिप्रमाणित छायाप्रति है) कण्डिका-3 (क)
4	श्री गोपाल चन्द्र बनर्जी पिता-श्री गणेश चन्द्र बनर्जी ग्राम-घोड़ाबान्धा, पो.-लोहावासा, थाना-गोविन्दपुर जिला- पूर्वी सिंहभूम	प्रथम संपुष्ट सूची, जिला - पूर्वी सिंहभूम सूची में क्रमांक-284 कण्डिका-2 (अन्य)	टेलको थाना प्राथ. सं. 202/93 के अंतर्गत संसीमित रहने का कारा संसीमन प्रमाण पत्र (अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, घाघीडीह के पत्रांक-533, दिनांक-06.02.2019 से सत्यापित) कण्डिका-3 (क)
5	श्री देबु बनर्जी पिता-श्री गणेश चन्द्र बनर्जी ग्राम-घोड़ाबान्धा, पो.-लोहावासा, थाना-गोविन्दपुर जिला-पूर्वी सिंहभूम	प्रथम संपुष्ट सूची, जिला - पूर्वी सिंहभूम सूची में क्रमांक-286 कण्डिका-2 (अन्य)	टेलको थाना प्राथ. सं. 202/93 के अंतर्गत संसीमित रहने का कारा संसीमन प्रमाण पत्र (अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, घाघीडीह के पत्रांक-3869, दिनांक-26.10.2018 से सत्यापित) कण्डिका-3 (क)

6	श्री उपेन सोरेन पिता-श्री चन्द्र मोहन सोरेन ग्राम-धोबनी, पो.-राजदोहा, थाना-जादुगोड़ा जिला-पूर्वी सिंहभूम	द्वितीय संपुष्ट सूची, जिला - पूर्वी सिंहभूम सूची में क्रमांक-09 कण्डिका-2 (अन्य)	मानगो थाना प्राथ. सं. 68/96 के अंतर्गत संसीमित रहने का कारा संसीमन प्रमाण पत्र (अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, घाघीडीह के पत्रांक-533, दिनांक-06.02.2019 से सत्यापित) कण्डिका-3 (क)
7	श्री शंकर भगत पिता-स्व. नारायण भगत ग्राम-पकुरिया, कटहल टोली, पो.-जुरिया, थाना-लोहरदगा जिला-लोहरदगा	प्रथम संपुष्ट सूची, जिला - लोहरदगा सूची में क्रमांक-54 कण्डिका-2 (अन्य)	लोहरदगा थाना प्राथ. सं. 124/87 के अंतर्गत संसीमित रहने का कारा संसीमन प्रमाण पत्र (अधीक्षक, मंडल कारा, लोहरदगा के पत्रांक-841, दिनांक-25.07.2018 से सत्यापित) कण्डिका-3 (क)
8	श्री अमर प्रदीप कुजूर पिता-श्री प्रभु सहाय कुजूर ग्राम-नवाडीह, फटेयाटोली, किस्को, पो.-नारी-नवाडीह, थाना-किस्को जिला-लोहरदगा	प्रथम संपुष्ट सूची, जिला - लोहरदगा सूची में क्रमांक-90 कण्डिका-2 (अन्य)	लोहरदगा थाना प्राथ. सं. 84/93 के अंतर्गत संसीमित रहने का कारा संसीमन प्रमाण पत्र आयोग द्वारा 55वीं बैठक में लोहरदगा वाद सं. एम 84/93 को झारखण्ड वनांचल आन्दोलन से संबंधित माना गया है। (अधीक्षक, मंडल कारा, लोहरदगा के पत्रांक-144, दिनांक-28.01.2019 से सत्यापित) कण्डिका-3 (क)
9	श्री नसिम अंसारी पिता-सलामत अंसारी ग्राम-चीरी, बरवाटोली, पो.-चीरी, थाना-कुडू, जिला-लोहरदगा	द्वितीय संपुष्ट सूची, जिला - लोहरदगा सूची में क्रमांक-04 कण्डिका-2 (अन्य)	कुडू थाना प्राथ. सं. 88/94 के अंतर्गत संसीमित रहने का कारा संसीमन प्रमाण पत्र। (टंकण त्रुटिवश सूची में 38/94 अंकित हो गया, कुडू थाना प्राथ. सं. 88/94 को आयोग द्वारा पूर्व में झारखण्ड वनांचल आन्दोलन से संबंधित माना गया है। (अधीक्षक, मंडल कारा, लोहरदगा के पत्रांक-840, दिनांक-25.07.2018 से सत्यापित) कण्डिका-3 (क)
10	श्री जाकिर अंसारी पिता-स्व. इबराहिम अंसारी ग्राम-चीरी, पो.-चीरी, थाना-कुडू, जिला-लोहरदगा	तृतीय संपुष्ट सूची, जिला - लोहरदगा सूची में क्रमांक-01 कण्डिका-2 (अन्य)	कुडू थाना प्राथ. सं. 88/94 के अंतर्गत संसीमित रहने का कारा संसीमन प्रमाण पत्र। (अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, लोहरदगा के पत्रांक-938, दिनांक-11.08.2018 से सत्यापित) कण्डिका-3 (क)
11	श्री पियोन हेम्ब्रम पिता-श्री परमेश्वर हेम्ब्रम ग्राम-तरनी, पो.-कारुडीह, थाना-गोपीकान्दर जिला-दुमका	प्रथम संपुष्ट सूची, जिला - दुमका सूची में क्रमांक-232 कण्डिका-2 (अन्य)	जामा थाना प्राथ. सं. 22/89 के अंतर्गत संसीमित रहने का कारा संसीमन प्रमाण पत्र। (अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, दुमका के पत्रांक-3963, दिनांक-25.09.2018 से सत्यापित) कण्डिका-3 (क)

12	श्री बड़ो सोरेन पिता-स्व. शिव लाल सोरेन ग्राम-गुंदलुडीह, बालदाटांड, पो.-बड़ो घोलजोड़, थाना-कुण्डहित जिला-जामताड़ा	प्रथम संपुष्ट सूची, जिला - जामताड़ा सूची में क्रमांक-71 कण्डिका-2 (अन्य)	कुण्डहित थाना प्राथ. सं. 97/94 में संसीमित रहने का कारा संसीमन प्रमाण पत्र के आधार पर। (आयोग द्वारा इस काण्ड को पूर्व में झारखण्ड/वनांचल आन्दोलन से संबंधित माना गया है।) अधीक्षक, मंडल कारा, जामताड़ा के पत्रांक-1407, दिनांक-13.10.2016 से कारा संसीमन प्रमाण पत्र सत्यापित) कण्डिका-3 (क)
13	श्री बनारसी साहु पिता-रामदास साहु ग्राम-बड़ा मुरी, पो.- बड़ा मुरी, थाना-सिल्ली जिला-राँची	तृतीय संपुष्ट सूची, जिला - राँची सूची में क्रमांक-20 कण्डिका-2 (अन्य)	आयोग की 56वीं बैठक दिनांक-06-08/08/2018 के निर्णय संख्या-09 में दिये गये आदेश के आलोक में सिल्ली थाना प्राथ. सं.-91/92 को झारखण्ड आन्दोलन से संबंधित घटना माना गया है। सिल्ली थाना प्राथ. सं. 91/92 के अंतर्गत संसीमित रहने का कारा संसीमन प्रमाण पत्र। (अधीक्षक, बिरसा मुण्डा केन्द्रीय कारा, होटवार, राँची के पत्रांक-6217, दिनांक-10.09.2018 से सत्यापित) कण्डिका-3 (क)
14	श्री इस्तखार अंसारी पिता-तैयब अंसारी ग्राम-गोबिन्दाडीह, पो.-कल्याणपुर थाना-कतरास जिला-धनबाद	प्रथम संपुष्ट सूची, जिला - धनबाद सूची में क्रमांक-104 कण्डिका-2 (अन्य)	गोविन्दपुर (बरवाअड़ा) प्राथ. सं. 79/92 के अंतर्गत संसीमित रहने का कारा संसीमन प्रमाण पत्र। (अधीक्षक, मंडल कारा, धनबाद के पत्रांक-212, दिनांक-24.01.2019 से सत्यापित) कण्डिका-3 (क)
15	श्री मनोज कुमार सिंह पिता-श्री नकुल रवानी ग्राम-धोबनी, पो.-लालपुर थाना-पुटकी जिला-धनबाद	पंचम संपुष्ट सूची, जिला - धनबाद सूची में क्रमांक-23 कण्डिका-2 (अन्य)	पुटकी थाना प्राथ. सं. 105/92 के अंतर्गत संसीमित रहने का कारा संसीमन प्रमाण पत्र। (अधीक्षक, मंडल कारा, धनबाद के पत्रांक-212, दिनांक-24.01.2019 से सत्यापित) कण्डिका-3 (क)

गृह विभाग

संकल्प

07 मई, 2012 ई०।

संख्या-06/विविध-1013/2008- 2108 --राज्य मंत्रीपरिषद् द्वारा झारखण्ड/वनांचल अलग राज्य के गठन

हेतु किये गये आन्दोलनों के आन्दोलनकारियों को सम्मानित करने हेतु निम्नांकित निर्णय लिये गये हैं:-

1. पुलिस फायरिंग अथवा कारा में मृत आन्दोलनकारी के आश्रित परिवार के एक सदस्य को निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के अनुरूप राज्य सरकार के तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदों पर नियोजित किया जायेगा।

आश्रित की श्रेणी में मृत आन्दोलनकारी की पत्नी/पुत्र/अविवाहित पुत्री/पुत्र की विधवा पत्नी/आन्दोलनकारी मृत महिला का पति/आन्दोलनकारी के पौत्र/पौत्री आयेंगे।

2. राज्य सरकार द्वारा अन्य आन्दोलनकारियों के मामलों में परिवार के एक सदस्य, जो नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया में शामिल है, को तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदों पर अन्य बातें समान रहने पर नियुक्ति में प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया है।

यह नियुक्ति, आन्दोलनकारी परिवार को एक ही बार (One Time Benefit) देय होगा।

3. कारा में संसीमित आन्दोलनकारियों को उनके जीवनकाल एवं मृत्यु होने पर उनके एक आश्रित को जीवनकाल तक सम्मान पेंशन निम्नरूपेण दिया जायेगा:-

(क) कारा में छः माह से कम संसीमित रहने पर रू० 3,000/- (तीन हजार रुपये) प्रतिमाह।

(ख) कारा में छः माह से अधिक संसीमित रहने पर रू० 5,000/- (पाँच हजार रुपये) प्रतिमाह।

4. आन्दोलनकारी जो बी०पी०एल० कोटि के अन्तर्गत आते हैं, उन्हें राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत निबंधित/सम्मिलित कर चिकित्सा सुविधा दी जायेगी। अन्य आन्दोलनकारियों को राज्य सरकार के अस्पतालों एवं सी०जी०एच०एस० से मान्यता प्राप्त गैर सरकारी निजी अस्पतालों तथा समय-समय पर सरकार द्वारा अधिसूचित गैर सरकारी अस्पतालों में चिकित्सीय सुविधा दी जायेगी। यह चिकित्सीय सुविधा रू० 30,000/- (तीस हजार रुपये) प्रतिवर्ष की अधिकतम सीमा तक प्रतिपूर्ति की जायेगी।

5. आन्दोलनकारियों को चिन्हित करने हेतु सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक त्रिसदस्यीय आयोग का गठन किया जायेगा। आयोग के सदस्यों का चयन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

6. आन्दोलनकारियों के आश्रितों की पहचान के संबंध में अंतिम निर्णय गृह विभाग के अधीन रहेगा।

7. चिन्हित आन्दोलनकारियों को प्रतीक चिन्ह एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

जे०बी० तुबिद,

सरकार के प्रधान सचिव।